

BSc. I Half yearly examination  
(Botany), Paper - I

Bacteria, viruses, fungi, lichens & algae Marks - 50

सभी प्रश्नों के उल्लं अनिवार्य रूप से दीजए -

- ① विषाणु (viruses) की संरचना एवं विशुणन multiplication पर ज्ञापत्री लिखिए । (10)
- ② Bacteria में Conjugation तथा transformation की प्रक्रियाएँ के बारे में अधेप में लिखिए । (10)
- ③ Peziza पेंडाइजा के जनन तथा जीवन चक्र पर सम्बन्ध वर्णन कीजए । (10)
- ④ Volvox वॉल्वोक्स की संरचना तथा जीवन चक्र इति वर्णन कीजए । (10)
- ⑤ Mycorrhiza माइकोराइजा पर ज्ञापत्री लिखिए । (10)

BSc. I Half yearly examination  
Paper - II

Marks  
50

Bryophytes, pteridophytes, gymnosperms & Palaeobotany

सभी प्रश्नों के उल्लं अनिवार्य रूप से दीजए -

- ① Riccia के आण्डारिकी, शारीर संरचना तथा प्रजनन की वित्तर-पूर्वक अभ्यास्ये । (10)
- ② Pteridophyte ट्रिडेक्टाइट के लकड़ा तथा तिथम्बीजाणुकर्मी Heterospory बीज विभाव इति वित्तर से वर्णन कीजए । (10)
- ③ Lycopodium लाइकोपोडियम के आण्डारिकी, शारीर संरचना तथा प्रजनन विधि को अभ्यास्ये । (10)
- ④ Cycas पर (साइक्स) पर ज्ञापत्री लिखिए । (10)
- ⑤ औव-उर्वरक ऐजोला Azolla पर लोख लिखिए । (10)

BSc. II Half yearly examination  
(Botany) Paper-I

Plant taxonomy, Economic botany, Plant anatomy &  
Embryology

सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से लिखिए -

- ① पादप पहचान में हब्बेरियम (Huberium) की मुमिका पर संक्षिप्त उत्तर लिखिए । 10
- ② मालवेसी Malvaceae family के लकड़ा तथा आधिक महत्व का वर्णन कीजिए । 10
- ③ बेंथम एवं हुकर (Bentham & Hooker) के कार्गिकरणों का अंशिष्ट रूपरेखा त्रिजित एवं गुण तथा दोषों की विवेचन । 10
- ④ Medicinal Plant (योग्यादीय) पर उत्तर लिखिए । 10
- ⑤ पेय पदार्थ (Beverages) पर एक विस्तृत लेख लिखिए । 10

BSc. II Half Yearly examination  
(Botany) Paper - II  
Ecology & Plant Physiology

सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य रूप से दीजिए-

1. खलोदिवाह (Hydrophytes) पौधों का आकारकीय एवं शासीकीय अनुकूलन का वर्णन कीजिए। (10)
2. पारप अनुक्रमण (Succession) से ज्या समझते हैं? इसी एवं पारप अनुक्रमण की व्याख्या कीजिए। (10)
3. पारिपथातुक तंत्र ज्या है? पारिपथातुक तंत्र में जर्जी प्रवाह का वर्णन कीजिए। (10)
4. असरीहण (Ascent of sap) ज्या है? असरीहण की विधाकीय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। (10)
5. प्रकाश - संक्षेपिता की परिभाषा कीजिए? CAM Pathway एवं पौधों का वर्णन कीजिए। (10)

BSc. III Half yearly examination  
 Paper - I (Botany)  
 Plant Physiology, Biochemistry & Biotechnology

- ① वायपोत्सर्जन किसे कहते हैं? इनके उद्दारों तथा एव्हरीय वायपोत्सर्जन की छुया-विधि की विवेचन। शीर्षक 10
- ② युक्त प्रोटकूल तत्व क्या है? पौधों के जीवन में उनके योगदान एवं उनसे उपजन लक्षणों का वर्णन शीर्षक 10
- ③ उष्ण - सख्तवेषण की परिमिति शीर्षक 10 पौधों में पाथी जाने वाली अद्यतर अधिकारी छुया विवरण शीर्षक 10
- ④ इक्सन से आप क्या समझते हैं? आम्सीश्वसन के अंतर्गत सम्पादित बने वाले क्लेब चक्र (Kleb's cycle) का वर्णन शीर्षक 10
- ⑤ छायाहम स्पाह है? उनकी उत्तरि, नामकरण, वर्गीकरण छुयाविधि तथा जीविक महत्वों का वर्णन शीर्षक 10

BSc. III Half yearly examination  
 Paper - II  
 Ecology & Utilization of Plants

- ① भूखिक्षाद पौधे क्या हैं? भूखिक्षाद (xerophytes) पौधों में पाये जाने वाली आश्वारीकीय, वारीरीकीय एवं उत्तरीतमनु अनुकूलनों का वर्णन शीर्षक 10
- ② खाद्य जल एवं खाद्य शुरूकर्ता का संक्षेप में वर्णन शीर्षक 10
- ③ भारत में पाये जाने वाले वनों के प्रकारों पर विवरण शीर्षक 10
- ④ अनाज से आप क्या समझते हैं? अन उड़ान और वाले पौधों का वर्णन शीर्षक 10
- ⑤ ऐत मूर्श-सम्पादन क्लेब से आप क्या समझते हैं? तथा काव्यन चक्र की महिनार के सम्पादन शीर्षक 10

Half yearly examination

B.Sc. I Biotechnology

Paper-I

Biochemistry maths & computer

Marks - 50

- ① Protein क्या हैं? उनके Structure, classification व प्र्प्रैर्टीज को सविस्तार से समझाइये। (10)

प्रूफ़ों फॉर्म-

1. Monosaccharide - 05
2. Scope of Biochemistry - 05

- ② Hormones क्या हैं? Plant & animal hormone को सविस्तार समझाइये। (10)

or

1. Co-enzyme
2. Essential & non-essential amino acid

- ③ Carbohydrate क्या हैं? उनके Structure, classification व दोनों फौलियाँ। (10)

प्रूफ़

1. Auxin
2. Amino acid

- ④ Computer क्या हैं? उनके संगठनों का विवरण व उनकी फौलियाँ। (10)

प्रूफ़

1. Oligosaccharide
2. Keel cycle

- ⑤ Central tendency के अवर्गीत Mean, median, को समझाइये। (10)

प्रूफ़ फॉर्म

1. Structure of Protein
2. Co-factor

B.Sc. I Half yearly examination

Biotechnology

Paper - II

Marks - 50

Cell biology, genetic & microbiology

① Mitochondria की संरचना का विवरण से 10वां श्लोक

प्रूफ लिखें -

or

1. Cell theory

- 05

2. Cell wall

- 05

② समस्ती विभाजन (Mitosis) की अविळार से समझाइये ।

प्रूफ लिखें

or

1. Endoplasmic reticulum

or

2. Lysosome

③ Chromosome की संरचना का विवरण से 10वां श्लोक

प्रूफ लिखें

or

1. Nucleus

or

2. Special type of chromosome

④ Bacteria की संरचना तथा उसके अंतर्गत 10वां श्लोक

प्रूफ लिखें -

or

1. Microbiology

or

2. Mendel's law of inheritance

⑤ Microbial growth & nutrition के विवरण से समझाइये ।

प्रूफ लिखें +

or

1. Plasma membrane

or

2. Ribosome

BSc. II Half Yearly examination  
Paper - I (Molecular Biology & Biophysics)

① Nucleotides तथा उनका DNA की संरचना को समझाइये। (10)

Ans. उत्तर -

1. RNA (05)
2. Nucleosides (05)

② DNA fingerprinting technique को विवरणीकरण करें। (10)

1. Autoradiography
2. Genetic code

③ Electrophoresis का Principle, Structure व उपयोग की प्रक्रिया। (10)

- Ans.
1. Plasmids
  2. Central dogma

④ RNA की संरचना तथा यह किसके द्वारा बनती है। (10)

1. Operon
2. Microscopy

⑤ DNA replication में involved होने वाले enzyme को बताएं व उनके द्वारा किसके द्वारा बनते हैं। (10)

- Ans.
1. Chromatography
  2. GENE

BSc. II Half yearly examination  
Paper - II  
Recombinant DNA technology & genomics

① PCR technique के step व उत्तराधिकारी, लाभ, निष्पादन की विवरण। 50 marks

प्रूफ़ विवर - OR

1. C-DNA library
2. Recombinant DNA technology

② Gene therapy के अविकास की विवरण। 10

1. Stem cell
2. Microinjection method

③ Gene transfer method के अविकास की विवरण। 10

1. Vector
2. Genomic library

④ Proteomics में क्या है तथा इसके अविकास से जुड़ी विवरण। 10

1. Application of PCR
2. Genomics

⑤ Molecular marker में क्या हैं, उत्तराधिकारी RFLP व उत्तराधिकारी RAPD की विवरण। 10

1. Variation of PCR
2. Bioinformatics

BSc. III Half yearly examination  
Paper - I General Biotechnology

50 ma

- ① Plant tissue culture नया उन्ने application of ⑩  
एकार से असाइन्ये ।

Dicot Plant - or

1. Ti & Ri Plasmid
2. Application of Plant tissue culture

- ② Agrobacterium mediate Plasmid के एकारण्यक ⑪  
असाइन्ये ।

or

1. Bt gene
2. Plant cell

- ③ Environmental pollution नया है । नया उन्ने  
Type of प्रकार से शोन बीमार ⑫

Dicot Plant -

1. Environmental biotechnology
2. RAPD technique

- ④ What is a greenhouse effect ? what are the  
source of green house gases ⑩

or

1. Acid rain
2. Ozone depletion

- ⑤ Molecular marker out है । RFLP नया RAPD  
technique के असाइन्ये ।

or

1. Agrobacterium
- 2.

BSc. III Half yearly examination  
Paper - I General Biotechnology

50 ma

- ① Plant tissue culture नया उन्ने application of ⑩  
एकार से असाइन्ये ।

Dicot Plant - or

1. Ti & Ri Plasmid
2. Application of Plant tissue culture

- ② Agrobacterium mediate Plasmid के एकारण्यक ⑪  
असाइन्ये ।

or

1. Bt gene
2. Plant cell

- ③ Environmental pollution नया है । नया उन्ने  
Type of प्रकार से शोन बीमार ⑫

Dicot Plant -

1. Environmental biotechnology
2. RAPD technique

- ④ What is a greenhouse effect ? what are the  
source of green house gases ⑩

or

1. Acid rain
2. Ozone depletion

- ⑤ Molecular marker out है । RFLP नया RAPD  
technique के असाइन्ये ।

or

1. Agrobacterium
- 2.